



Annual Audit Report

NAGAR PARISHAD GURH

District - Rewa (M.P.)

(Financial Year: 2020-21)

R R Bajaj & Associates

CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office :

A-8, Narayan Palaza, 26/A, Chandivali Road Off Saki Vihar Road, Andheri
(East), Mumbai - 400072

Contact No : 9167569898 • Email : rrbajajassociates@gmail.com

R R BAJAJ & ASSOCIATES

Chartered Accountants

A-8, Narayan Plaza, 26/A, Chandivali Road, Off Saki Vihar Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 072, Contact No. : +91 9167569898, E-mail : rrbajajassociates@gmail.co

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

हमारे द्वारा नगर परिषद् - गुड़, जिला सीवा (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2020-21 का वित्तीय अंकेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशो/परिपत्रो एवं अधिनियम का पालन किया गया है।

हमारे द्वारा नगर परिषद् के 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के समस्त अभिलेखो/प्रपत्रो आदि का निरीक्षण किया गया है नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्ति एवं भुगतान खाते के आधार पर समस्त प्राप्तियों एवं उनके भुगतान का निरीक्षण नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये व्हाउचरो एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर किया गया है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की एक प्रति इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कि जा रही है।

नगर परिषद् द्वारा अभी तक दोहरा लेखा प्रणाली नहीं अपनायी गयी है अभी भी परिषद् द्वारा लेखे इकहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही तैयार किये जाते है अतः हमने हमारा अंकेक्षण इकहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर ही संपन्न किया है।


हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन मानकों का प्रतिपालन किया गया है जिन्हे सामान्यतः भारत में मान्य किया जाता है और जो संस्था के वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो आपत्तियां एवं अनियमितताए पायी गयी है हमने उन पर परिषद् के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है जो अनियमितताए संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य है हम उन्हे इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर रहे है।

अंकेक्षण निरीक्षण एवं प्रतिपालन :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षण प्रतिवेदन को आधार मानते हूऐ हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण कार्य किया गया है।

Date - 27/09/2021

Place - Rewa


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुड़, जिला सीवा (म.प्र.)

For R R BAJAJ & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN - 100895W




Sachin Khandelia
(Partner)
M. No. 428557

R R BAJAJ & ASSOCIATES

Chartered Accountants

A-8, Narayan Plaza, 26/A, Chandivali Road, Off Saki Vihar Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 072, Contact No. : +91 9167569898, E-mail : rrbajajassociates@gmail.com

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक

प्राप्तियां	अनु. कं.	राशि	भुगतान	अनु. कं.	राशि
प्रारंभिक शेष			भुगतान		
रोकड़ बचत		-	स्थापना व्यय	(क)	10,862,142.00
बैंक बचत		86,256,796.03	प्रशासनिक व्यय	(ख)	2,964,051.11
			परिचालन एवं अनुरक्षण	(ग)	21,461,990.92
			ब्याज एवं वित्त प्रभार	(घ)	1,312,024.00
प्राप्तियां			अन्य राजस्व व्यय	(ड)	45,875.75
नगर पालिका कर व दर	(क)	845,346.00	पूँजीगत व्यय	(च)	11,962,972.91
जलकर से प्राप्तियां	(ख)	511,621.00	सहायता, अनुग्रह एवं अंशदान	(छ)	799,850.00
नगर परिषद के शुल्क एवं प्रभार	(ग)	302,441.00	विविध ऋण अग्रिम इत्यादि	(ज)	1,242,350.00
नगर परिषद की संपत्तियों से प्राप्त किराया एवं प्रिमियम	(घ)	249,667.00			
बिक्री एवं निलामी	(ड)	130,786.00			
अनुदान अंशदान	(च)	37,946,077.00			
अर्जित ब्याज	(छ)	2,023,598.00	अंतिम शेष:-		
देय सरकारी राशियां	(ज)	39,740.00	रोकड़ बचत		-
विविध, ऋण एवं अन्य प्राप्तियां	(झ)	1,029,466.00	बैंक बचत		78,684,281.34
योग		129,335,538.03	योग		129,335,538.03

As per our report of even date annexed.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)



Sachin Khandelia

(Partner)
Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021
Place : Rewa

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

वर्ष 2020-21 की प्राप्तियां

अनु.क्र.	प्राप्ति शीर्ष	राशि
	प्रारंभिक शेष	
(क)	नगर पालिका कर व दर	86,256,796.03
1	सम्पत्ति कर	
	चालू	
	बकाया	17,346.00
2	समेकित कर	45,130.00
	चालू	
	बकाया	121,190.00
	योग (क)	661,680.00
		845,346.00
(ख)	जलकर से प्राप्तिया	
1	जल कर	
	चालू	
	बकाया	259,021.00
2	नल जल आवेदन	205,700.00
3	नल जल अमानत	500.00
4	नल जल अग्रिम किराया	19,000.00
5	नल जल प्लम्बर चार्ज	3,600.00
6	नल जल कनेक्शन समायोजन	4,000.00
	योग (ख)	19,800.00
		511,621.00
(ग)	नगर परिषद के शुल्क एवं प्रभार	
1	भवन अनुमति शुल्क	
2	बाजार वसूली	5,250.00
3	पानी टैंकर किराया	63,975.00
4	मड पम्प किराया	16,000.00
5	आवेदन शुल्क	10,500.00
6	नामान्तरण शुल्क	30.00
7	अधिभार शुल्क	31,000.00
8	प्रमाण पत्र शुल्क	2,948.00
9	नवीनीकरण शुल्क	1,191.00
10	प्रतिभूति राशि	2,175.00
11	नीलामी राशि	3,000.00
12	बिलम्ब शुल्क	30,183.00
13	पोलीथीन जुर्माना	1,015.00
14	मास्क जुर्माना	3,900.00
15	निविदा प्रपत्र शुल्क	8,780.00
17	नकल शुल्क	116,500.00
	योग (ग)	5,994.00
		302,441.00
(घ)	नगर परिषद की संपत्तियों से प्राप्त किराया एवं प्रिमियम	
2	भवन एवं भूमि का किराया बकाया	
3	लीज राशि	15,000.00
7	दुकान किराया	31,622.00
	चालू	
	बकाया	122,650.00
	योग (घ)	80,395.00
		249,667.00



(ड)	बिक्री एवं निलामी	
1	कबाड़ एवं विक्री प्रभार	130,786.00
2	अनुपयोगी सामग्री निलामी	-
योग (ड)		130,786.00
(च)	अनुदान अंशदान	
1)	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	
1	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	14,903,077.00
2	मुद्रांक शुल्क	69,000.00
3	यात्रीकर क्षतिपूर्ति अनुदान	178,000.00
2)	राजस्व अनुदान / विशिष्ट अनुदान	
- केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत प्राप्त		
1	15 वां वित्त आयोग	14,095,000.00
2	14 वां वित्त आयोग	45,000.00
3	परफॉर्मैन्स ग्रांट	25,000.00
- राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत प्राप्त		
1	सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,588,000.00
2	मुलभूत अनुदान	3,573,000.00
3	राज्य वित्त आयोग	3,300,000.00
4	मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना	170,000.00
योग (च)		37,946,077.00
(छ)	अर्जित ब्याज	
1	बचत खातों पर प्राप्त ब्याज	2,023,598.00
योग (छ)		2,023,598.00
(ज)	देय सरकारी राशियां	
1	देय शिक्षा उपकर	19,740.00
2	देय नगरीय विकास उपकर	20,000.00
योग (ज)		39,740.00
(झ)	विविध, ऋण एवं अन्य प्राप्तियां	
1	अमानत राशि	74,100.00
2	अन्य विविध	955,366.00
योग (झ)		1,029,466.00
कुल योग:-		129,335,538.03

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर प्रसिद्धि गृह, जिला सेवा (म.प्र.)



Sachin Khandelia
(Partner)
Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021

Place : Rewa

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

वर्ष 2020-21 के व्यय

अनु.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि
(क)	स्थापना व्यय	
1	अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं भत्ते	782,090.00
2	लोक निर्माण विभाग	652,200.00
3	लोक स्वास्थ्य विभाग	2,708,478.00
4	राजस्व विभाग	2,138,200.00
5	सामान्य प्रशासन विभाग	2,695,020.00
6	कार्यालय अस्थाई स्थापना	727,094.00
7	कर्मचारी भविष्य निधि (दे.वे.भो. कर्मचारी)	1,159,060.00
	योग (क)	10,862,142.00
(ख)	प्रशासनिक व्यय	
1	मोबाइल रिचार्ज	7,538.00
2	समाचार पत्र	12,238.00
3	लेख सामग्री	93,737.00
4	प्रिन्टर क्रय/मरम्मत	49,736.73
5	स्टेशनरी सामग्री	7,950.00
6	कम्प्यूटर क्रय मरम्मत	145,394.27
7	यात्रा व्यय - अधिकारी कर्मचारी	49,961.00
8	वाहन किराया	167,500.00
9	फायर वाहन सामग्री	141,246.76
10	जनरेटर किराया	38,500.00
11	फर्नीचर क्रय/मरम्मत	119,308.76
12	वाहन बीमा	35,668.00
13	तकनकी शुल्क	176,408.82
14	संपरीक्षा शुल्क	373,784.00
15	विज्ञापन व्यय	140,885.42
16	प्रचार-प्रसार व्यय	25,480.00
17	आनंद उत्सव	16,056.00
18	अतिथि सत्कार व्यय	29,790.00
19	विधिक शुल्क	27,500.00
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,305,368.35
	योग (ख)	2,964,051.11

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)



(ग)	परिचालन एवं अनुरक्षण	
1	ईंधन	278,018.70
2	विद्युत एवं बिजली जल प्रदाय	4,622,365.00
3	विद्युत एवं बिजली स्ट्रीट लाइट	2,137,175.00
4	विद्युत एवं बिजली शुलभ शौचालय	140,313.55
5	विद्युत एवं बिजली कार्यालय भवन	98,649.00
6	विद्युत सामग्री	1,192,049.46
7	जल प्रदाय सामग्री	1,149,138.70
8	अग्नि शमन सामग्री	1,328,389.00
9	हैण्डपम्प सामग्री	558,815.96
10	कूड़ा कचड़ा एवं सफाई व्यय	376,030.00
11	सफाई सामग्री	1,171,026.27
12	मरम्मत एवं संधारण – जल प्रदाय (पाइप लाइन)	171,582.40
13	मरम्मत एवं अनुरक्षण – वाहन	214,600.00
14	हैण्ड पम्प मरम्मत	177,112.00
15	पुलिया मरम्मत	109,169.17
16	मरम्मत एवं अनुरक्षण सड़क	812,906.20
17	सार्वजनिक शौचालय मरम्मत	121,460.65
18	जल प्रदाय मजदूरी	1,150,133.00
19	लोक स्वास्थ्य मजदूरी	2,131,609.00
20	विद्युत मरम्मत मजदूरी	80,542.00
21	पोल सेप्टिक कार्य	2,731,285.74
22	विद्युत मरम्मत	170,700.00
23	मरम्मत एवं अनुरक्षण अन्य	204,864.12
24	मरम्मत अनुरक्षण सामुदायिक भवन	24,696.00
25	मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यालय भवन	121,829.86
26	मरम्मत एवं अनुरक्षण नाली	187,530.14
	योग (ग)	21,461,990.92

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुड, जिला सेवा (म.प्र.)



(घ)	ब्याज एवं वित्त प्रभार	
1	हुडको से लिए ऋण पर ब्याज	1,312,024.00
	योग (ग)	1,312,024.00
(ड)	अन्य राजस्व व्यय	
1	बैंक कमीशन	2,490.75
2	विविध व्यय	43,385.00
	योग (ड)	45,875.75
(च)	पूँजीगत व्यय	
1	सड़क निर्माण	142,009.62
2	पुलिया निर्माण	63,024.84
3	नाला निर्माण	1,738,230.92
4	नाली निर्माण	768,051.99
5	रैप निर्माण कार्य	48,457.92
6	सामुदायिक शौचालय निर्माण	187,559.03
7	एल0टी0 लाइन विस्तारीकरण	1,077,894.00
8	रिटेनिंगवाल निर्माण	227,094.86
9	मुख्य मंत्री शहरी पेयजल	4,681,800.00
10	बाउन्ड्रीवाल निर्माण	362,874.73
11	सैनेट्री पैड मशीन क्रय	28,500.00
12	पंखा क्रय	14,275.00
13	स्वच्छ भारत वाहन क्रय	2,623,200.00
	योग (च)	11,962,972.91
(छ)	सहायता, अनुग्रह एवं अंशदान	
1	मुख्य मंत्री संबल योजना अन्त्येष्टि	160,000.00
2	स्वच्छ भारत मिशन	
	प्रथम मिस्त	205,258.00
	द्वितीय किस्त	434,592.00
	योग (छ)	799,850.00
(ज)	विविध ऋण अग्रिम इत्यादि	
1	अमानत राशि	76,750.00
2	हुडको ऋण राशि का भुगतान	1,165,600.00
	योग (ज)	1,242,350.00
	योग (क) से (ज) :-	50,651,256.69
	अंतिम शेष:-	78,684,281.34
	कुल योग:-	129,335,538.03

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुरु, जिला रोवा (म.प्र.)




Sachin Khandelia
(Partner)
Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021

Place : Rewa

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)
आय एवं व्यय खाता
01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक

व्यय	राशि	आय	राशि
स्थापना व्यय	10,862,142.00	नगर पालिका कर व दर	845,346.00
प्रशासनिक व्यय	2,964,051.11	जलकर से प्राप्ति	511,621.00
परिचालन एवं अनुसंधान	21,461,990.92	नगर परिषद के शुल्क एवं प्रभार	302,441.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,312,024.00	नगर परिषद की संपत्तियों से प्राप्त किराया एवं प्रिमियम	249,667.00
अन्य राजस्व व्यय	45,875.75	बिक्री एवं निलामी	130,786.00
सहायता, अनुग्रह एवं अंशदान	799,850.00	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	15,150,077.00
		अर्जित ब्याज	2,023,598.00
		देय सरकारी राशियां	39,740.00
		व्यय का आय पर आधिक्य	18,192,657.78
योग	37,445,933.78	योग	37,445,933.78

As per our report of even date annexed.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W

Date : 27/09/2021

Place : Rewa

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)



Sachin Khandelia
(Partner)

Mem. No. 428557

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

तुलना पत्रक

वित्तीय वर्ष 2020-21

दायित्व (स्थायी / अस्थायी)	राशि	संपत्ति (स्थायी / अस्थायी)	राशि
पूँजी खाता		पूँजीगत व्यय एवं संपत्तियां	
सामान्य संचय	36,403,706.03	निर्माण कार्य	
		सड़क निर्माण	142,009.62
चातू दायित्व		पुलिया निर्माण	63,024.84
विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्राप्त अनुदान, अंशदान	72,436,206.00	नाला निर्माण	1,738,230.92
		नाली निर्माण	768,051.99
		रैप निर्माण कार्य	48,457.92
		सामुदायिक शौचालय निर्माण	187,559.03
		एल0टी0 लाइन विस्तारीकरण	1,077,894.00
		रिटेनिंगवाल निर्माण	227,094.86
		मुख्य मंत्री शहरी पेयजल	4,681,800.00
		बाउन्ड्रीवाल निर्माण	362,874.73
		संपत्ति कय	
		सैनेट्री पैड मशीन क्रय	28,500.00
		पंखा क्रय	14,275.00
		स्वच्छ भारत वाहन क्रय	2,623,200.00
		चालू संपत्ति	
		रोकड़ बचत	-
		बैंक बचत	78,684,281.34
		आय व्यय खाता	
		व्यय का आय पर आधिक्य	18,192,657.78
योग	108,839,912.03	योग	108,839,912.03

As per our report of even date annexed.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN - 100895W


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)




Sachin Khandelia

(Partner)

Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021

Place : Rewa

नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

बैंक समाधान विवरण

31 मार्च 2021 (वित्तीय वर्ष - 2020-21)

क्र.	बैंक का नाम	खाता संख्या	कैशबुक अंतिम शेष	पासबुक अंतिम शेष	अन्तर
1	भारतीय स्टेट बैंक	53032533507	35,613,923.00	35,612,326.89	1,596
2	भारतीय स्टेट बैंक	53032580569	4,046,140.00	4,046,140.00	-
3	भारतीय स्टेट बैंक	39120920104	7,595,578.75	7,585,000.75	10,578
4	भारतीय स्टेट बैंक	36461933978	8,085,090.00	8,085,090.00	-
5	इलाहाबाद बैंक (संचित निधि)	22176905813	1,218,509.00	1,218,509.00	-
6	इलाहाबाद बैंक	22176925240	2,879,799.00	2,879,799.00	-
7	यूनियन बैंक	437402011005445	11,616.00	11,616.00	-
8	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1887804721	3,468,133.00	3,468,133.00	-
9	आई0डी0बी0आई0	0423102000011750	3,765,400.00	3,765,400.00	-
10	इलाहाबाद बैंक	22176863906	61.50	61.50	-
11	इलाहाबाद बैंक	22176863871	31.91	31.91	-
योग			66,684,282.16	66,672,108.05	12,174
Fixed Deposits			12,000,000.00		
Total			78,684,282.16		

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)



नगर परिषद गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

भारतीय स्टेट बैंक खाता नं. - 53032533507

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					35,613,923.00
B. जोड़े :-					-
घटाएँ :-					
C. कैश प्राप्त हुआ परंतु बैंक में जमा नहीं हुआ				1,596.00	
					1,596.00
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	35,612,327.00
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष					35,612,326.89
F. अंतर				[D - E]	0.11

भारतीय स्टेट बैंक खाता नं. - 53032580569

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					4,046,140.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	4,046,140.00
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष					4,046,140.00
F. अंतर				[D - E]	-

भारतीय स्टेट बैंक खाता नं. - 39120920104

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					7,595,578.75
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					
C. प्राप्त आया जो कैशबुक में दर्ज है किन्तु बैंक में जमा (कलेक्शन) न होने के कारण		27.03.2021		4,930.00	
		31.03.2021		5,648.00	
					10,578.00
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	7,585,000.75
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष					7,585,000.75
F. अंतर				[D - E]	-

भारतीय स्टेट बैंक खाता नं. - 36461933978

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					8,085,090.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	8,085,090.00
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष					8,085,090.00
F. अंतर				[D - E]	-



इलाहाबाद बैंक (संचित निधि) खाता नं. - 22176905813

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					1,218,509.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	1,218,509.00
E. बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अंतिम शेष					1,218,509.00
F. अन्तर				[D - E]	-

इलाहाबाद बैंक खाता नं. - 22176925240

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					2,879,799.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	2,879,799.00
E. बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अंतिम शेष					2,879,799.00
F. अन्तर				[D - E]	-

यूनियन बैंक खाता नं. - 437402011005445

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					11,616.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	11,616.00
E. बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अंतिम शेष					11,616.00
F. अन्तर				[D - E]	-

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता नं. - 1887804721

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					3,468,133.00
B. जोड़े :-					-
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष				[A + B - C]	3,468,133.00
E. बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अंतिम शेष					3,468,133.00
F. अन्तर				[D - E]	-



आई0डी0बी0आई0 खाता नं. 0423102000011750

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					
जोड़े :-					3,765,400.00
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष					-
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष				[A + B - C]	3,765,400.00
F. अन्तर					3,765,400.00
				[D - E]	-

इलाहाबाद बैंक खाता नं.22176863871

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					
B. जोड़े :-					31.91
Round off					
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष					-
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष				[A + B - C]	31.91
F. अन्तर					31.91
				[D - E]	-

इलाहाबाद बैंक खाता नं.22176863906

विवरण	चेक न.	पासबुक दिनांक	कैशबुक दिनांक	राशि	कुल राशि
A. रोकड़ पुस्तक अनुसार शेष					
B. जोड़े :-					61.50
C. घटाएँ :-					-
D. रोकड़ पुस्तक का समायोजित शेष					-
E. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम शेष				[A + B - C]	61.50
F. अन्तर					61.50
				[D - E]	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुल, जिला सीवा (म.प्र.)



THE AUDITOR'S SCOPE OF WORK

Audit of Revenue :

Annexure - B

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor is responsible for revenue from various sources.	We Have Verified The Cash Book For Audit Of Revenue From Various Sources i.e Tax Revenues, Rental & Premium From Municipal Properties, Fees & Other User Charges, Revenue Grants, Interest Earned And Other Revenue Receipts.	Nagar Parishad take strict action for any revenue leakage and guide all the Employees to do that task in sincere manner. We also found that there are few Bank Accounts in which idle amount deposited, we suggest Nagar Parishad should convert that accounts with Swip Accounts so that Nagar Parishad will earn Interest of FDR.
(ii)	He is also responsible to check the revenue receipts from the counterfiles of receipt books and verify that the money received is duly deposited in respective bank account.	We Checked All The Revenue Receipt From The Counter File Of Receipt Book And Verified That The Money Received Is Also Deposited In Respected Bank Account.	
(iii)	Percentage of revenue collection increase/decrease in various heads in property tax, Samekit kar, Shiksha upkar, Nagriya Vikash Upkar and Other tax, compared to previous year shall be part of report.	We have verified all the revenue collection detail as provided to us and insert the same in Abstract Sheet (Annexure - C)	
(iv)	Delay beyond 2 working days shall be immediately brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	
(v)	The entries in cash book shall be verified.	We Have Verified All Cash Book With The Receipts And Payments Voucher And Rokariya Receipts.	
(vi)	The auditor shall specifically mention in the report, the revenue recovery against the quaterly and monthly targets. Any lapses in revenue recovery shall be part of report.	We have verified revenue recovery done by Nagar Parishad and financial details are providing in Attached sheet. (Annexure - E)	
(vii)	The Auditor shall verify the interest income from FDR's and verify that interest income is duly and timely accounted for in cash book.	Interest Income From FDR's Recorded at the time of Maturity only.	
(viii)	The cases where, the investments are made on lesser interest rates shall be brought to the notice of the commissioner/CMO.	No case found.	

2. Audit of Expenses :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor is responsible for audit of expenditure under all the scheme.	We Have Covered All Schemes Expenditures .	Nagar Parishad has made adequate payment to vendors under the applicblle laws but we found some cases where payments were not according to that. We suggest that All the Officials of Nagar Parishad must validated all the Expenditures and UC's of all schemewise expenses should be compiled.
(ii)	He is also responsible for checking the entries in cash book and verifying them from relevant vouchers.	We Have Checked And Verified Cash Book entries With The Relevent Vouchers. Descripencies noticed are mentioned in Attaached Audit Note Sheet.	
(iii)	He should also check monthly balances of the cash book and guide the accountant to rectify errors, if any.	We Have Checked Monthly Closing Balances of Cash Book and if there is any errors we notified it to CMO/Accountant.	
(iv)	He shall verify that the expenditure for a perticular scheme is limited to the funds allocated for that particular scheme any over payment shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	We have verified all the expenditure detail as provided to us and if there is any case where over payment done by the Nagar Parishad, same has been notified to CMO/Accountant.	
(v)	He shall also verify that the expenditure is accordance with the guidelines, directives acts and rules issued by Government of India/State Government.	All Expenditure Are Made In Accordance With The Guidelines, Directives, Acts And Rules Issued By Government Of India/State Government.	
(vi)	During the audit financial propriety shall be checked. All the expediture shall be supported by financial and Administrative saction accorded by Limits of the sanctioning authority.	All The Expenses Were Under Financial Propriety And The Expenditure Is According To The Financial And Administrative Sanction Accorded By The Competent Authority.	
(vii)	All the cases where appropriate sanctions have not been obtained shall be reported and compliances of audit observations shall be ensured during the audit. Non complinces of audit paras shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	



(iii)	The Auditor shall be responsible for Verification Of Scheme Project Wise Utilization Certificates (UC'S.) UC's shall be Talled With The Income & Expenditure Records And Creation Of Fixed Asset.	UC's has not been provided by the Nagar Parishad.
(ix)	The Auditor shall Verify that all the temporary advances have been fully recovered.	No temporary advance provided by ULB during the year.

3. Audit of Book Keeping :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor shall be responsible for Audit of All The Books Of Accounts As Well As Stores.	We Checked All The Books Of Accounts Which Maintained By The Nagar Parishad.	Nagar Parishad should maintain all the Books of Accounts as prescribed by the laws and prepared BRS on monthly basis for timely reconciliation of cash book with bank balances.
(ii)	He Shall verify All The Books Of Accounts And Stores Are Maintained As Per Accounting Rules Applicable To Urban Local Bodies. Any Descripencies Shall Be Brought To The Notice Of Commissioner/CMO.	Nagar Parishad has not Maintained All The Books of Accounts eg. Fixed Assets Register, Bills Payable register etc.	
(iii)	The Auditor shall verify Advance Register And see that All The Advances Are Timely Recovered According To The Conditions Of Advances. All The Cases Of Non Recovery Shall Be Specifically Mentioned In Audit Report.	No advance provided by ULB during the year.	
(iv)	Bank Reconciliation Statements (BRS) Shall Be Verified From The Records Of ULB And The Bank Concerned. If Bank reconcilation statements are not prepared, the auditor will help in the prepartion of BRS.	Nagar Parishad has prepared Bank Reconciliation statement on yearly basis only. We have attached a copy of BRS with this report for the year ended on 31st march 2021.	
(v)	He Shall be responsible for verifying Enteries In The Grant Register. The Receipts And Payments Of Grants Shall Be Duly Verified From The Entries In The Cash Book.	Grant Register is maintain by the Nagar Parishad.	
(vi)	The auditor shall verify the Fixed Assets Register from other records and discrepancies shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	FAR is not prepared by ULB.	
(vii)	The auditor shall reconcile the accounts of receipts and payments especially for project funds.	We Have Reconcile Reciept & Payment Of Project Fund As Per Cash Book.	

4. Audit of FDR :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor is resposible for audit of all Fixed deposits and term deposits.	We Have Verified All The FDRs and Term Deposits only one FDR created out of Grant fund.	FDR register should be maintained and all entries releted to FDR should be posted in FDR register and Cash Book also.
(ii)	It shall be ensured that proper records of FDR's are maintained and all renewls are timely done.	FDR register is not prepared by ULB.	
(iii)	The cases where FD's/TDR's are Kept at Low rate of interest than the prevailing rate shall be immediately brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	
(iv)	Interest earned on FDR/TDR shall be verified from entries in cash book.	FDR Interest is recorded in cash book on timely basis.	

5. Audit of Tenders :


Indicators		Observations	Remarks
(i)	The auditor is responsible for udit of all tenders/bids invited by the ULB's are done	We have examine Tender/Bid Documents invited by ULB.	Nagar Parishad has called all the tenders with proper media. We suggest that Nagar Parishad must carry this practice.
(ii)	He shall check Whether competative tendering procedures are followed for all bids.	Competative tendering procedures are followed.	
(iii)	He shall Verify the receipts of tender fee/bid processing fee/performance gurantee both during the construction and maintenance period.	All the entries are verified.	



(v)	The bank guarantees, if received in lieu of bid processing fee/performance guarantee shall be verified from the issuing banks.	No bank guarantee received.
(v)	The conditions of BG's Shall also verified, any BG with any such condition which is against the interests of the ULB shall be verified and brought to the notice of Commissioner/CMO.	Not Applicable.
(vi)	The cases of extension of BG's shall be brought to the notice of Commissioner/CMO. Proper guidance to extend the BG's shall also be given to ULB's.	Not Applicable.

6. Audit of Grants & Loans :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The auditor is responsible for audit of grants given by central Government and it's utilization.	We have Covered All Grant Received From Central Government.	We suggest to Nagar Parishad that they should maintain Grant Register in adequate format. We suggest that they must bifurcate grants eg. State Share, Central Share.
(ii)	He is Also responsible for audit of grants received from State Government and it's utilization.	We have Covered All Grant Received From State Government.	
(iii)	He Shall Perform audit of loans provided for physical infrastructure and it's utilization. During this audit the Auditor Shall specifically comment on the revenue mechanism i.e. whether the asset created out of the loan has generated the desired revenue or not. He shall also comment on the possible reasons for non generation of revenue.	Neither Assets/Physical Infrastructure has been generated out of Loan taken.	
(iv)	The Auditor shall specifically point out any diversion of funds from capital receipts/grants/loans to revenue expenditure and from one scheme/project to another.	During Audit We Found That Some Grants Are Like Mixed Nature i.e. Capital & Revenue Nature Therefore In That Cases We Can't Bifurcate How Much Portion Belongs To Revenue Or Capital. Except That All Grants Use For The Purpose For Which Grants Have Received.	


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद् गुण, जिला सेवा (म.प्र.)



Nagar Parishad, Gurh

District - Rewa (M.P.)

Name of Auditor - R R Bajaj & Associates, Mumbai

Abstract Sheet for Reporting on Audit Paras for Financial Year 2020-21

Annexure - C

Annexure - C					
Sr No. Parameters		Description		Observations in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue	Receipts in Rs.			
राजस्व कर वसूली		Year 2019-20	Year 2020-21	% of Growth	
i	संपत्तिकर	37,494.00	62,476.00	66.63	उपरोक्त सारणी के अवलोकन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नगर परिषद द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी मुख्य करो एवं शुल्कों की वसूली में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है। कुल राजस्व वसूली में 19.67 प्रतिशत की वृद्धि आयी है। नगर परिषद द्वारा बताया गया की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली अभी निकाय द्वारा नहीं की जा रही है।
ii	समेकित कर	430,980.00	782,870.00	81.65	
iii	नगरीय विकास उपकर	9,342.00	20,000.00	114.09	
iv	शिक्षा उपकर	9,267.00	19,740.00	113.01	
	कुल योग	487,083.00	885,086.00	81.71	
गैर राजस्व वसूली					
i	भवन भूमि किराया	227,640.00	249,667.00	9.68	राजस्व कर वसूली में 81.71 की वृद्धि एवं गैर राजस्व वसूली में कुल 06.81 प्रतिशत की कमी आयी है
ii	जल उपभोक्ता प्रभार	502,600.00	511,621.00	1.79	
iii	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार	-	-	-	
iv	अन्य कर एवं शुल्क	411,173.00	302,441.00	-26.44	
	कुल योग	1,141,413.00	1,063,729.00	-6.81	
	महायोग	1,628,496.00	1,948,815.00	19.67	
					1. नगर परिषद में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या कम होने की बजह से राजस्व वसूली प्रभावित होती है अतः अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए.
					2. नगर परिषद द्वारा राजस्व वसूली हेतू आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे की आनलाइन भुगतान एवं स्वाइप मशीन आदि।
					3. जिन व्यक्तियों द्वारा समय पर कर का भुगतान ना किया जाये उनको विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
					4. समय पर कर का भुगतान करने वाले कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतू करो में रियायत दी जानी चाहिए।
					5. समय-समय पर कर वसूली हेतू नगर के विभिन्न स्थानों पर कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् गुरु, जिला रेवा (म.प्र.)

Nagar Parishad, Gurh

District - Rewa (M.P.)

Name of Auditor - R R Bajaj & Associates, Mumbai

Sr No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
2	Audit of Expenditure	Auditor's liability to check all the expenses are accordance with the Sanction made for it and also check all expenses are made with proper Authentication.	We Have Covered All Schemes Expenditures .	Nagar Parishad has made addequate payment to vendors under the applicable laws but we found some cases where payments were not according to that. We suggest that All the Officials of Nagar Parishad must validated all the Expenditures and UC's of all schemewise expenses should be compiled.
3	Audit of Book Keeping	The Auditor Verified All The Books Of Accounts As Well As Stores.	We have Checked All The Books Of Accounts Which Maintained By The Nagar Parishad and we found that some books are not prepared by ULB.	Nagar Parishad should maintain all the Books of Accounts as prescribed by the laws.
4	Audit of FDR	All Fixed Deposits And Term Deposits Are Verified.	Yes We Have Verified All The FDRs	FDR register should be maintained and all entries related to FDR should be posted in FDR register and Cash Book also.
5	Audit of Tenders/Bids	Audit of all tenders/bids invited by the Nagar Parishad's are done .	We have examine Tender/Bid Documents invited by Nagar Parishad.	Nagar Parishad has called all the tenders with proper media. We suggest that Nagar Parishad must carry this practice.
6	Audit of Grants & Loans	Audit of all grants given by central/state Government and it's utilization are done.	We have Covered All Grant Received From Central/State Government.	We suggest to Nagar Parishad that they should maintain Grant Register in adequate format. We suggest that they must bifurcate grants eg. State Share, Central Share.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका, गुर्ह, जिला रेवा (म.प्र.)

7	Incidences relating to diversion of funds from capital receipts/ grants/ loans to revenue nature expenditure and from one scheme/project to another				During Audit We Found That Some Grants Are Like Mixed Nature i.e. Capital & Revenue Nature Therefore In That Cases We Can't Bifurcate How Much Portion Belongs To Revenue Or Capital. Except That All Grants Use For The Purpose For Which Grants Have Received.	Nagar Parishad can give proper attention in that matter as that decide the Asset creation and bifurcate the revenue nature items.
8	Any other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to revenue receipts (Tax and non tax)	Revenue Exp 36,646,083.78	Revenue Receipts 19,253,276.00	Percentage Revenue Expenditures with respect to Revenue Receipts 190.33%.	Material Purchase Amount Included in Operation & Maintenance of Water Supply, Public Lighting & Cleaning that's Why there is excess Difference in Percentage of Revenue Exp over revenue receipts.	Nagar Parishad should maintain all the records of Expenditure with respect to Revenue Expenditure and Capital Expenditure.
	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	Capital Exp. 13,205,322.91	Total Exp. 50,651,256.69	Percentage Capital Expenditures with respect to Total Expenditures are 26.07%.	Capital Expenditure are having substantial with respect to Total expenditure made by the Nagar Parishad.	Nagar Parishad should maintain all the records of Expenditure with respect to Revenue Expenditure and Capital Expenditure.
9	Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.	Auditor is liable to check all the advances given on temporary basis.			No temporary advance provided by ULB during the year.	NA
10	Whether bank reconciliation statement have been regularly prepared.	As per the rules Nagar Parishad Should Prepared Bank Reconciliation Statement on Monthly Basis.			During Our Audit we found that ULB is Preparing Bank Reconciliation Statement on yearly basis only. Copy of BRS is Attached with this report.	We Suggest Nagar Parishad officials to Prepare BRS on Monthly basis for identifying the reasons behind the differences between cash book balance and Bank Account Balance.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका, जिला सेवा (म.प्र.)

Sachin Khandelia
 (Partner)
 Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021
 Place : Rewa

Nagar Parishad, Gurh

District - Rewa (M.P.)

Annexure - D

2020-21 INCOME & EXPENDITURE INFORMATION																									
S. No.	Division	District	ULB Name	ULB Type	REVENUE RECEIPTS								CAPITAL RECEIPTS				REVENUE EXPENDITURE					CAPITAL EXPENDITURE			TOTAL EXPENDITURE
					Property Tax	Other Tax Revenue	Fee & User Charges	Revenue from Municipal Property	Assinged Revenue	Revenue Grants, Contribution & Subsidies	Other Income	Capital Receipts	Central Finance Commission Receipts	State Finance Commission Receipts	Other Grants	Total Receipts	Establishment Expenses	Administrative Expenses	Operation & Maintenance Charges	Interest & Finance Charges	Other Exp.	Loan Repayment	Other Capital Expenses		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Rewa	Rewa	Gurh	Nagar Parishad	62476	1247591	349341	249667	15150077	0	39740	5430100	14140000	3300000	0	39968992	10862142	2964051.11	21461990.92	1312024	845725.75	1165600	12039722.91	50651256.69	

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100895W



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका, गुर्ह, जिला रेवा (म.प्र.)

Date : 27/09/2021
Place : Rewa

Sachin Khandelia
(Partner)
Mem. No. 428557

Nagar Parishad, Gurh

District - Rewa (M.P.)

1 Revenue recovery against the yearly targets.

We have verified revenue recovery done by ULB and found that revenue recovered by ULB is far below then the yearly targets. Financial details as per Vasuli Patrak are provided below :-

Annexure - E

Sr No	Tax/fee	Target (Current Year)	Collection as per Vasuli Patrak	Collection Percentage
1	Property Tax	77799.00	17346.00	22.3%
2	Consolidated Tax	434880.00	121190.00	27.9%
3	Urban Development Cess	24198.00	5109.00	21.1%
4	Education Cess	22390.00	4836.00	21.6%
5	Land/Building Rent	200000.00	168835.00	84.4%
6	Water User Charges	584160.00	259021.00	44.3%
Total		1343427.00	576337.00	42.9%

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
समस्तगिरिपद गुरु, जिला सेवा (म.प्र.)



Annexure - F

2 Audit of all grants given by central/state Government and it's utilization

We have verified all grants received from central/state governments and it's utilization. Financial details are provided below :-

Sr No	Name of the Head	Unutilised grant at the year end
1	सड़क मरम्मत अनुरक्षण मद	1588000.00
2	मूलभूत सुविधा मद	4423976.00
3	राज्य वित्त आयोग मद	9248276.00
4	विशेष निधि	2500000.00
5	12 वें वित्त आयोग मद	2879799.00
6	14 वें वित्त आयोग मद	18497130.00
7	15 वें वित्त आयोग मद	8835706.00
8	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना (द्वितीय चरण)	991751.00
9	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	7382982.00
10	स्व0भा0मि0 (व्यक्तिगत शौचालय)	1393888.00
11	स्व0भा0मि0 (सामुदायिक शौचालय)	672441.00
12	आई0डी0एस0एम0टी0 योजना	4046140.00
13	बी0आर0जी0 एफ0 योजना	3468133.00
14	कार्यालय भवन	800000.00
15	संचित निधि	1218509.00
16	मुख्यमंत्री जन कल्याण "संबल योजना (अन्त्येष्टि)	35000.00
17	मुख्यमंत्री जन कल्याण "संबल योजना (अनुग्रह)	600000.00
18	अन्य मद	3724350.00
19	विधायक निधि	130125.00
		0.00
	योग	72436206.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका, जिला सेवा (म.प्र.)

3 Audit of FDR.

We have verified all the fixed deposit maintained by ULB. Financial details provided below :-

Sr No	Bank Name	FDR No.	Amount
1	Union bank of india	437403030064260	5,000,000.00
2	Allahbad bank	504776774486	5,000,000.00
3	Allahbad bank	504776774486	2,000,000.00
7			
Total			12,000,000.00

Annexure - G

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN - 100895W



Sachin Khandelia
(Partner)

Mem. No. 428557

Date : 27/09/2021
Place : Rewa

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर कोषागार, जिला सेवा (म.प्र.)